



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2605]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 18, 2013/कार्तिक 27, 1935

No. 2605]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 18, 2013/KARTIKA 27, 1935

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2013

का.आ. 3446(अ).—केन्द्र सरकार राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (2013 का 26) के खंड 1 के उप-खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 18 नवम्बर, 2013 को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी होने की तिथि के रूप में नियत करती है।

[फा. सं. एवी. 28011/04/2013-ईआर]

एम. कन्नन, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2013

S.O. 3446(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Rajiv Gandhi National Aviation University Act, 2013 (26 of 2013), the Central Government hereby appoints the 18th day of November, 2013 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. AV. 28011/04/2013-ER]

M. KANNAN, Economic Advisor